

पांच में से लगभग एक विक्टोरियाई हर वर्ष मानसिक रोग का सामना करता है।

विक्टोरिया की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली उन लोगों की सहायता करने में विफल रही है जिन्हें उच्च-गुणवत्तापूर्ण इलाज, देखभाल और समर्थन की सबसे अधिक ज़रूरत होती है।

वर्तमान प्रणाली का वर्णन विफल के रूप में किया गया है।

इसलिए विक्टोरियाई सरकार ने विक्टोरिया की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली में रॉयल कमीशन की स्थापना की है। अब तक विक्टोरियाई समुदाय से 8,200 से भी अधिक योगदान प्राप्त हुए हैं।

अंतरिम रिपोर्ट अब सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है।

यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है। परन्तु यह तात्कालिक ज़रूरतों के विषय में प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ सुझाव ज़रूर देती है। यह प्रणाली-व्यापक तौर पर संशोधन करने की तैयारी करने में भी सहायता करेगा जो कि कमीशन की अंतिम रिपोर्ट के पश्चात किए जाएंगे।

विक्टोरियाई सरकार कमीशन द्वारा दिए गए सभी सुझावों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अंतरिम रिपोर्ट में दिए गए सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए एक विक्टोरियाई सहयोगात्मक केन्द्र की स्थापना करना
- 170 से भी अधिक ऐक्यूट मेन्टल हेल्थ बेड्स (तीव्र मानसिक स्वास्थ्य बिस्तरों) की शुरुआत करना
- आत्महत्या की कोशिश करने वाले लोगों के लिए उनकी कोशिश के बाद की देखभाल और समर्थन में विस्तार
- एक ऐसी आवासीय सेवा विकसित करना जिसे उन लोगों द्वारा तैयार और प्रदान किया जाता है जिन्होंने जीवन में इसका सामना किया हो और जीवन में इसका सामना करने वाले कर्मियों की संख्या बढ़ाना
- एबोरिजनल (जनजातीय) विक्टोरियाई लोगों के लिए राज्य-भर में सेवाओं का विस्तार करना
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल को बढ़ावा देना और मार्गदर्शकों का विकास करना
- मानसिक स्वास्थ्य के लिए निवेश में ठोस वृद्धि प्राप्त करना
- और कमीशन के सुझावों को प्रदान करने के लिए एक समर्पित कार्यालय की स्थापना करना।

हमारा काम यहीं समाप्त नहीं होता है। हम अक्टूबर 2020 में अंतिम रिपोर्ट प्रदान करेंगे, जो मानसिक रोग के साथ जीवन जीने वाले लोगों, उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और समुदाय के लिए विक्टोरिया की मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को रूपांतरित करने के उद्देश्य से एक साहसिक व अभिनव विधि प्रस्तुत करेगी।